

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत

पता- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम खाग बिठौरा कलौ पीलीभीत, उ०प्र०-262001

ई०-मेल:asmcpilibhit2022@gmail.com

www.asmcpilibhit.com

पत्रांक-ए०एस०एम०सी० / पीलीभीत / 2024 / 19

दिनांक-06.03.2024

विज्ञप्ति:-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में नॉन पी०जी० जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर/डिमोन्स्ट्रेटर के विभिन्न पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 11:00 बजे से कार्यालय प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत में होगा, इस हेतु रू० 500 का डिमांड ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत के पक्ष में देय होगा, शुल्क के साथ मूल प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक प्रमाण-पत्रों का एक सैंट सत्यापित प्रतिलिपि के साथ-2 फोटो लाना अनिवार्य है, साक्षात्कार के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से ज्यादा और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र 6 माह से ज्यादा का मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होगा।

उक्त पदों का चयन विभागीय नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/नियमों के अनुसार किया जायेगा, पदों का विवरण निम्नवत् दर्शाया जा रहा है।

नॉन पी०जी० जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर/डिमोन्स्ट्रेटर के पदों का विवरण

क्र०स०	विभाग का नाम	अ०ज०जाति	अनुजाति	अ०पि०व०	सामान्य	ई०डब्ल्यू एस०	कुल
01	ऑफथलमोलॉजी	-	-	-	1	-	01
02	ऑयल एण्ड गायनी	-	-	1	-	-	01
03	एनाटमी	-	-	1	-	-	01
04	एनेस्थीसियालॉजी	-	1	-	-	-	01
05	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	1	-	01
06	जनरल मेडिसिन	-	1	2	-	1	04
07	जनरल सर्जरी	-	2	1	1	-	04
08	डर्मटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रसी	-	-	-	1	-	01
09	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	1	01
10	पैथलॉजी	-	1	-	-	-	01
11	फिजियोलॉजी	-	1	-	-	-	01
12	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	1	-	01
13	बायोकेमिस्ट्री	-	-	1	-	-	01
14	साइकाइट्री	-	1	-	-	-	01
कुल योग							20

शरीर रचना विभाग, शरीर क्रिया विभाग और जैव रसायन विभाग में ऐसे गैर चिकित्सा स्नातकों को ट्यूटर/डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास एम०एस०सी०(प्रासंगिक चिकित्सा) की योग्यता होगी को मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/ संस्थान द्वारा प्रदान की गयी हो

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है अथवा कालेज की वेबसाइट: www.asmcpilibhit.com से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर साक्षात्कार हेतु प्रत्येक कार्य दिवस को साथ लाये, तथा अद्योहस्ताक्षरी के कक्ष में 11:00 बजे से साक्षात्कार लिया जायेगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, उपरोक्त पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता नवीनतम एन०एम०सी० मानकों के अनुरूप होगी उक्त पदों का न्यूनतम कार्यकाल 3 माह अथवा अधिकतम कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों को घटाया बढ़ाया जा सकता है।

अर्हतायें- आवेदन की अंतिम तिथि तक एन०एम०सी० के मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है।

वेतनमान- वेतन बैंड रू० 15600-39100, ग्रेड पे-5400, /पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रू०-56100-177500

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
पीलीभीत।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग- उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

02- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

03- प्रभारी अधिकारी वेबसाइट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

04- सूचना पट हेतु।

05- गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
पीलीभीत।

OFFICE OF THE AUTONOMOUS STATE MEDICAL, COLLEGE, PILIBHIT
APPLICATION FOR THE POST OF NON PG JUNIOR RESIDENT/TUTOR/DEMONSTRATOR

Name of Department.....

1. (a) Full Name (Block Letter).....
 (b) Age & Sex (Male/Female).....

2. Father's Name.....

3. Date of Birth/...../..... Age

4. (a) Correspondence address with Tel No.....

.....
 (b) Permanent address with Tel No.....

5. Mobile Number.....E-mail ID.....

6. Belong to which category (Tick the category) General/E.W.S/O. B. C/ S.C/S.T.

7. NEET PG All India Rank

8. (a) Registration No with name of the Medical Council

(b) Registration no with name of the Medical council (MD/MS/DNB).....

9. Education Qualification (Please Self attested Photocopy of document in support)

Qualification	Year of Admission	Year of passing	Board/institution/Univesity	No. of Attempts	% of Marks
Highschool					
MBBS					
Other Qualification					

10-(a) Present Employment Post held since(if any).....

(b) If yes, address of the present employer and NOC from the Employer.....

11. Inquiry to any or disciplinary action pending/ taken during the study period at the medical college.....

Note: Enclosed Document in support of information given on S. No. 3, 6, 7, 8, & 9

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I have declare that the above information is true, and contact to the best of my knowledge and belief. I have not suppresses any material, facts of factual information. I have never been debarred from appearing at any examination. I understand that my candidature is liable to be rejected in the event of any mis-statement/ discrepancies in the particulars being detected and after my appointment in such an event. My services are liable to be terminated without any notice to me or reason thereof. I undertake not to make any claim or compensation. If at any stage of my selection, my ineligibility for candidature is cancelled as a result thereof.

No. of Enclosure:

Place.....

Date.....

(Signature of the candidate)

Name:

